



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11012024-251282
CG-DL-E-11012024-251282

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 11, 2024/पौष 21, 1945

No. 09]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 2024/PAUSHA 21, 1945

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

आ.अ. 10(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबंधों के अनुसरण में और अपनी अधिसूचना सं. 434/एस्केएम-लो.स./2019(1) दिनांक 27 फरवरी, 2019 के अधिक्रमण में, भारत निर्वाचन आयोग सिक्किम सरकार के परामर्श से, एतद्वारा “जिला कलक्टर, गंगटोक” को सिक्किम राज्य में “सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग अधिकारी” के रूप में नामोद्दिष्ट करता है।

[सं. 434/एस्केएम-लो.स./2023(1)]

आदेश से,

अरविन्द आनंद, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2024

O.N. 10(E).—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/SKM-HP/2019(1) dated 27th February, 2019, the Election Commission of India, hereby designates, in consultation with the Government of Sikkim, the “**District Collector, Gangtok**” to be the “**Returning Officer for the Sikkim Parliamentary Constituency**” in the State of Sikkim.

[No. 434/SKM-HP/2023(1)]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2024

आ.अ. 11(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी अधिसूचना सं. 434/एसकेएम-एचपी/2019(2) दिनांक 27 फरवरी, 2019 और इसके अनुवर्ती संशोधनों का अधिक्रमण करते हुए निर्वाचन आयोग एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकार के प्रत्येक अधिकारी को, उक्त तालिका के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट सिक्किम राज्य में सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के कार्य-निष्पादन में उनकी सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:-

तालिका

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी	सहायक रिटर्निंग अधिकारी
(1)	(2)
सिक्किम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी	<ol style="list-style-type: none"> 1. जिला कलक्टर, ग्यालशिंग 2. अपर जिला कलक्टर, ग्यालशिंग 3. जिला कलक्टर, सोरेंग 4. अपर जिला कलक्टर, सोरेंग 5. जिला कलक्टर, नामची 6. अपर जिला कलक्टर, नामची 7. जिला कलक्टर, पाकयोंग 8. अपर जिला कलक्टर, पाकयोंग 9. जिला कलक्टर, मन्गन 10. अपर जिला कलक्टर, मन्गन 11. अपर जिला कलक्टर, गंगटोक 12. अपर जिला कलक्टर, (एचक्यूआर), गंगटोक

[सं. 434/एसकेएम-लो.स./2023(2)]

आदेश से,

अरविन्द आनंद, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2024

O.N. 11(E).— In exercise of the powers conferred by sub-Section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of its Notification No. 434/SKM-HP/2019(2), dated 27th February, 2019 and its subsequent amendments, the Election Commission hereby appoints, each of the officers of the Government as specified in column (2) of the Table below as the **Assistant Returning Officer** to assist the Returning Officer of the **Sikkim Parliamentary Constituency** in the State of Sikkim as specified in column (1) of the said Table in the performance of the functions of such Returning Officer:-

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officer
1	2
Returning Officer of Sikkim Parliamentary Constituency	<ol style="list-style-type: none"> 1. District Collector, Gyalshing 2. Addl. District Collector, Gyalshing 3. District Collector, Soreng 4. Addl. District Collector, Soreng 5. District Collector, Namchi 6. Addl. District Collector, Namchi 7. District Collector, Pakyong 8. Addl. District Collector, Pakyong 9. District Collector, Mangan 10. Addl. District Collector, Mangan 11. Addl. District Collector, Gangtok 12. Addl. District Collector (HQR), Gangtok

[No. 434/SKM-HP/2023(2)]

By Order,

ARVIND ANAND, Principal Secy.